

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2817  
16.12.2015 को दिया जाने वाला उत्तर

एनआईडी के साथ समझौता

2817. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रेलवे ने कोच इंटीरियर, रसोईयान के पुनः डिजाइन और प्लेटफार्म और प्रतीक्षालयों में सीटों की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ एक समझौता किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा एनआईडी को सौंपे गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य ओर इसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क): जी हां।

(ख) से (घ): रेल मंत्रालय ने एनआईडी अहमदाबाद में रेलवे डिजाइन केंद्र की स्थापना के लिए 10.04.2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन (एनआईडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय रेलवे को रेल परिवहन और इससे संबद्ध गतिविधियों के अनेक क्षेत्रों में नए डिजाइन के सुझावों और उत्तम डिजाइन कार्यपद्धतियों में सहायता मिलेगी।

रेलवे डिजाइन केंद्र को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- (i). सवारी डिब्बों में ऊपर की बर्थों पर चढ़ने के लिए उन्नत सीढ़ी व्यवस्था करना।
- (ii). उच्च गति सेगमेंट में मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की बाहरी साज-सज्जा के लिए नई रंग योजना बनाना।
- (iii). लेआउट, रंग योजना, शौचालय आदि के संबंध में सवारी डिब्बों के इंटीरियर में सुधार लाना।
- (iv). ईएमयू सवारी डिब्बों के लिए कौलेप्सीबल सीटों की व्यवस्था करना।
- (v). 'एक भारत-एक रेलवे' सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर संकेतों और अन्य यात्री सुविधाओं में एकरूपता लाना।

एनआईडी ने सवारी डिब्बों के लिए कुछ रंग योजनाएं और उन्नत सीढ़ी व्यवस्था के संबंध में डिजाइन प्रस्तुत किए हैं और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा कार्रवाई की जा रही है।

बहरहाल, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली व्यवस्थाएं आगामी 10 वर्षों में लागू की जाएंगी।

\*\*\*\*\*